

### Vipul Limited

Vipul TechSquare Golf-Course Road, Sector-43 Gurgaon - 122 009

Tel: -91-124-406 5500 Fax: 91-124-406 1000

E-mail: info@vipulgroup.in

www.vipulgroup.in

### Ref. No. VIPUL/SEC/FY2022-23/2122

September 06, 2022

The Secretary BSE Limited, (Equity Scrip Code: 511726) Corporate Relationship Department, At: 1ST Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Limited, (Equity Scrip Code: VIPULLTD) Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai-400051

Dear Sir(s),

Sub: Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is in continuation of our letter no. under Ref. No. VIPUL/SEC/FY2022-23/ dated September 06, 2022. We are forwarding herewith copies of New Paper clippings regarding Annual General Meeting and Remote E-voting published on Tuesday, September 06, 2022 in "Business Standard", in English language and "Business Standard", in Hindi language inter-alia containing the following details:

- i. Notice of 31st Annual General Meeting ("AGM") of Vipul Limited being convened on Friday, September 30, 2022 at 12.00 Noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated August 11, 2022, without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue of the Annual General Meeting of the Company is the registered office of the Company i.e. Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
- Details of completion of dispatch of Notice of AGM/Annual Report.
- iii. Details regarding remote e-voting period which commences on Monday, September 26, 2022, 9:00 a.m. and ends on Thursday, September 29, 2022, 5:00 p.m. The facility for voting through electronic voting system shall be made available during the AGM and only those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM.
- iv. Details of cut-off date for reckoning the voting rights of Members shalf be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company i.e. Friday, September 23, 2022.



## Vipul Limited

Vipul TechSquare Golf-Course Road, Sector-43 Gurgaon - 122 009

Tel: -91-124-406 5500 Fax: 91-124-406 1000 E-mail : info@vipulgroup.in www.vipulgroup.in

v. Details of Book Closure for AGM. The Register of Members and Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 23, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

You are requested to take the above information on record and bring the same to the notice of all concerned.

Thanking you
Yours faithfully

For Vipul Limited

(Sumil Kumar)

Company Secretary A-38859

### KRISHNA VENTURES LIMITED

Registered Office: Corporate Centre, 7th Floor, opp. Hotel VITS Andheri Kurla Road, Andheri East Mumbai 400059 CIN: L45400MH1981PLC025151 T: +91 22 2826 9568/69 E-Mail: corporate@krishnaventures.com Website: krishnaventures.info

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM"), of the Members of Krishna Ventures Limited will be held on Friday, September 30, 2022 at 11 A.M..at the registered office of the Company situated at Corporate Centre, 7th Floor, opp. Hotel VITS Andheri Kurla Road Andheri East Mumbai -400059 to transact the business as contained in Notice of the AGM.

The Notice of the AGM along with the Attendance Slip and Proxy Form has been sent to the members at their registered addresses by post and electronically to those members who have registered their e-mail addresses with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA" Depository Participants ("DP's). Members who have requested through any specific mode have been served in the said notice. These documents are also available on Company's website krishnaventures.info and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) a

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Company is providing its members facilities for remote e-voting. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as or the cut-off date i.e. September 23<sup>a</sup>, 2022 may cast their vote electronically on the businesses se forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system on NSDL portal from a place other than the place of venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

- 1. The Special Business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote
- 2. The remote e-voting shall commence on Tuesday. September 27th, 2022 The remote e-voting shall end on Thursday, September 29th, 2022
- The cut-off date for determining the eligibility for remote e-voting is Friday, September 02, 2022. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding as on the cut-off date, may obtain a login ID and password by sending an email to <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting the vote.
- Members eligible to vote may note that:
- a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 05:00 P.M. on Thursday September 29th, 2022 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- b) The facility for voting through polling paper shall be made available at the venue of th
- c) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also
- d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register o beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting or voting at AGM through a poll.

attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again;

- The Company has appointed Mr. Aakash Goel, Proprietor of G Aakash & Associates Company Secretaries, (C.P. No.21629), as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process
- and poll at AGM in a fair and transparent manner.

  In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) for members and e-voting manual for members at the download section o <a href="https://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> or contact NSDL addressing email: <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>, or contact

Any member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (AGM) may appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself. The proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing proxies should however be deposited at the registered office of the Company not less than 48 (forty-eight) hours before the commencement of the AGM A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as a proxy for

> By Order of the Board of Directors For Krishna Ventures Limited

Date: September 5, 2022

(Ms. Divva Gaur) Company Secretary M. No: 47360



# **SYNERGY GREEN** SYNERGY INDUSTRIES LIMITED

CIN: L27100PN2010PLC137493 392, E Ward, Shahupuri, Assembly Road, Kolhapur - 416001 Tel: (0231) 2658375

Email: nmm@synergygreenind.com Website: www.synergygreenind.com

### **NOTICE-12THANNUAL GENERAL MEETING OF** SYNERGY GREEN INDUSTRIES LIMITED TO BE **HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)** OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) ON THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022

Notice is hereby given that the 12<sup>th</sup> Annual General Meeting (12<sup>th</sup>AGM) of the members of SYNERGY GREEN INDUSTRIES LIMITED (the Company) will be held on Thursday, September 29 2022 at 11:00 a.m. (IST) through VC or OAVM facility, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as MCA Circulars) and Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as SEBI Circulars) to transact the businesses as provided in the Notice convening 12<sup>th</sup>AGM (12<sup>th</sup>AGM Notice). The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 392, E Ward, Shahupuri, Kolhapur-416001.

Completion of Dispatch: The Company has completed dispatch or 12<sup>th</sup>AGM Notice and Integrated Annual Report for F.Y.2021-22 on September 06, 2022 electronically, to those members whose e-mai IDs were registered with the Company/Depository Participants and/or the Company's Registrar and Share Transfer Agent-Link ntime India Private Limited (RTA) as on the close of business hours on Friday, September 02, 2022, in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars which dispensed sending physica copy of these documents. The 12th AGM Notice and integrated Annual Report are also made available on the Company's website www.synergygreenind.com. NSDL's website https://evoting.nsdl.com/and also on the web sites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (Stock Exchanges). Voting through Electronic Mode: In accordance of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Secretarial Standard-2 on General Meetings Company

Secretaries of India and Regulation 44 of the SEB (ting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 12th AGM provided by NSDL at www.evoting.nsdl.com, as per below mentioned details: The members, whose names appear in the Register of the Members and/or the Register of Beneficial Owners as on the

- Cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022, will be entitled to avail the facility of voting by electronics means The Remote e-voting period will commence on Monday, September 26, 2022 at 9:00 a.m. (IST) and will end of
- Wednesday, September 28, 2022 at 5:00 p.m. (IST) Thereafter, the members will not be able to cast their votes by Remote e-voting. Once the votes on resolutions is casted by the member, the member shall not be allowed to change subsequently. The members who have casted their votes by Remote e-voting may attend the 12th AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the 12th AGM. The members who have not casted their votes by Remote e-voting shall be able to vote through electronic voting system at the 12th AGM.
- Members who have acquired equity shares after Friday September 02, 2022 as well as whose email ID is not registered may refer 'Procedure for procuring User ID and password for shareholders who have not registered their e-mail ID' as detailed in notes to the 12th AGM Notice, before the Cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022.
- Members are requested to follow the e-voting instructions and procedure for joining the 12th AGM, as provided in the Notes to 12th AGM Notice

Members holding shares in demat mode shall update their records with their Depository Participant(s) on or before **Thursday**, September 22, 2022.

Proxy: Members may kindly note that the 12th AGM is being held through VC facility and in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the physical attendance of members has beer dispensed with, hence the facility for appointment of proxies will no be available to the members for attending the 12<sup>th</sup>AGM.

Contact Details : In case of any queries related to NSDL logine-Voting/joining VC facility, members can contact Ms. Pallavi Mhatre Manager or Mr. Anubhav Saxena, Assistant Manager call at toll free nos: 1800 1020 990 or 1800 22 44 30 or send email at evoting@nsdl.co.in or refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com.

Place : Kolhapur

Date: September 06, 2022

For and on behalf of the Board of Directors For Synergy Green industries Limited Nilesh M. Mankar **Company Secretary & Compliance Officer** Membership No.ACS39928

### KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No: Re-E-tender No.20/2022-23/SE/PHC/CHN KIIFB- AUGMENTATION OF WSS TO ANGAMALY CONSTITUENCY - PART II - MALAYATTOOR-NEELEESWARAM AND AYYAMPUZHA PANCHAYATHS - PACKAGE II - LAYING OF CLEAR WATER PUMPING MAINS, SUPPLY AND ERECTION OF CLEAR WATER PUMP SET, CONSTRUCTION OHSR CHULLY, RENOVATION OF EXISTING STRUCTURES AND ROAD RESTORATION WORKS. EMD : Rs. 5,00,000/-. Tender fee : Rs. 17700/-Last Date for submitting Tender: 24.09.2022 03:00:pm

Phone: 04842364503, Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

# **ଟ CSB Bank**

# NOTICE OF 101<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OAVM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

**NOTICE** is hereby given that:

KWA-JB-GL-6-751-2022-23

- The 101<sup>st</sup> Annual General Meeting (**"AGM"**) of CSB Bank Limited(the **"Bank"**) will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (**"VC"**) / Other Audio Visual Means (**"OAVM"**), ir compliance with Companies Act, 2013 (the "Act"), read with General Circulars No.20/2020 dated May 5, 2020 Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021 and Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated May 12, 2020, dated January 15, 2021 and May 13, 2022 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India and SEBI, without the physical presence of shareholders at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the Meeting
- The Bank, in compliance with the above Circulars, has sent electronic copies of the Notice of the AGM and Annua Report for Financial year 2022, to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank Registrar & Share Transfer Agent of the Bank / Depository Participant(s). The notice of the 101st AGM and Annual Report for the Financial year 2021-22 are also made available on the Bank's website, at https://www.csb.co.in under 'Investor Relations' section, website of both the stock exchanges viz., BSE Limited at https://www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Ltd., at https://www.nseindia.com and on the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") website, at www.evotingindia.com.The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on September 04, 2022.
- Shareholders can attend the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

### E-VOTING INFORMATION

- . In terms of Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and any amendments thereto, the Bank will be providing e-voting facility to all its shareholders holding shares in physical and dematerialized form to exercise their right to vote by electronic means through remote e-voting on any or all of the business specified in the Notice of the AGM and decided to engage Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide remote e-voting facility. The shareholders are advised to access the link www.evotingindia.com to cast their vote.
- Shareholders holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 20,2022), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system ('remote e-voting'), the details of which are given below:

	(a)	Statement on businesses to be transacted by electronic voting	Business set out in Notice dated September 03,2022 may be transacted by electronic voting
	(b)	Date of completion of sending notice of AGM	September 04, 2022
	(c)		September 20, 2022
	(d)	Date and time of commencement of remote e-voting	Friday, September 23, 2022 (9.00 a.m. IST)
(	(e)	Date and time of ending of remote e-voting	Monday, September 26, 2022 (5.00 p.m. IST)
	(f)	The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:	00 p.m. IST on Monday, September 26, 2022 and once

- the votes on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder will not be allowed to change it subsequently https://www.csb.co.in (g) Website details of the Bank/Agency, where the Notice of
- AGM is displayed. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with electronic voting and technical assistance to access and participate in the neeting through VC.

Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@ cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

www.evotingindia.com

- 6. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. September 20, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting their vote. Any person who is not a shareholder /ceased to be a shareholder as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.
- Shareholders may note that:

a) The facility for e-voting will also be made available during the AGM, and those shareholders present in the AGM through VC/OAVM facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM.

b) The shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM can also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

c)Only persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

d)The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being Tuesday, September 20, 2022 subject to cap in voting rights in terms of Section 12(2) of Banking Regulation Act, 1949 and a Gazette Notification no. DBR.PSBD. No. 1084/16.13.100/2016-17 dated July 21, 2016.

e)The shareholders can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by using the remote e-voting login credentials and by following the procedure mentioned in this Notice. The facility to join through VC/OAVM will be available for shareholders on first come first

- The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode and physical mode is provided in the Notice of the AGM. The details are also made available on the website of the Bank, Shareholders are requested to visit https://www.csb.co.in to obtain such details.
- . Shareholders holding shares in dematerialized mode and had not registered their email address and mobile numbers are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode and had not registered their email address and mobile numbers are requested to furnish their email address and mobile numbers with the Bank's Registrar & Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Private Limited at coimbatore@linkintime.co.in to receive copies of the Annual Report 2021-22 along with the Notice of the 101st AGM, instructions for remote evoting and instructions for participation in the AGM through VC/OAVM.
- O.Shareholders who are holding shares in demat mode and not registered their e-Mail ID are requested to provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master list or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@csb.co.in for obtaining the user ID and Password for casting the vote through remote e-voting/evoting during the AGM. Alternatively, shareholders may send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
- . Helpdesk for individual shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL are given under: Helpdesk details

Charahaldara fasing any taobaical issue in login can centeet CDCL		
Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL nelpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33		
Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30		
he SI		

- 2.Mr. P.D Vincent, Practicing Company Secretary, Managing Partner, SVJS & Associates, Company Secretaries, Kochi has been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner
- 3. Shareholders may please note that, in terms of the aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of AGM Notice and Annual Report to the shareholders.

# BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of members and Share Transfer Books will remain closed from September 21, 2022 to September 27, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 101 Annual General Meeting

# REGISTRATION OF EMAIL ADDRESSES WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT ("RTA") TO RECEIVE NOTICE AND ANNUAL REPORT

To facilitate shareholders to cast their votes as well as receive the Notice and Annual Report 2021-22 electronically, the Bank has made special arrangement with its Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited for registration of e-mail addresses. Eligible members whose e-mail addresses are not registered with the Bank/RTA/ DPs are required to provide the same to M/s. Link Intime India Private Limited, by visiting the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html.

By order of the Board For CSB Bank Limited

Thrissur I September 05, 2022

Login type

Sijo Varghese **Company Secretary** 

# **CSB BANK LIMITED**

Regd. Office: "CSB Bhavan", St. Mary's College Road, Post Box No.502, Thrissur - 680 020, Kerala, India Tel:+91 0487-2333020 | Fax: 0487-2338764 | Website: www.csb.co.in | E-mail: board@csb.co.in Corporate Identity Number: L65191KL1920PLC000175



#### VIPUL LIMITED

Regd. Office: Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, Delhi-110017 Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009

CIN No.: L65923DL2002PLC167607, Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.in NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

n continuation to our newspaper advertisement dated August 11, 2022, notice is hereby given that the 31ST Annual General Meeting ("AGM") of Vipu Limited ("the Company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 12:00 Noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2023 compliance with the provisions on the Companies Act, 2015 and hades named intercuring head with General Andian No. 22022 dated May 13, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRIP/2022/62 dated May 13, 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the ousinesses as set out in the Notice of the AGM dated August 11, 2022, without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue of the Annual General Meeting of the Company is the registered office of the Company i.e. Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, Nev

n compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations'), MCA and SEBI Circulars, the 31st AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does no require physical presence of members at a common venue. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The said Notice along with Annual Report inter alia containing Board's Report, Corporate Governance Report, Auditors' Report and the Audite inancial Statements has been dispatched/circulated to all Members at their registered e-mail IDs, and the same is also available on the website of the Company at www.vipulgroup.in as well as on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

n compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulations 44 of the Listing Regulations, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGN using electronic voting system ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting.

The remote e-voting period commences on Monday, September 26, 2022, 9:00 a.m. and ends on Thursday, September 29, 2022, 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be llowed to change it subsequently. At the end of the remote e-voting period, the facility shall forthwith be blocked. The facility for voting through electronic voting system shall be made available during the AGM and only those Members, who will be present in the

interfacility for young unrough electronic voting system shall be inade available during the Acid mount and my area members, mile thin to proceed in a Most Montage and a mount of the moun

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Friday September 23, 2022 ("cut of date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions se orth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date hay obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote voting, then the existing user id and password can be used. If they have forgotten their password, they can reset their password by using "Forgot Use etails/Password' option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the notice of AGM which is available on the Company's website i

ww.vipulgroup.in and also on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com case of any queries relating to remote e-voting facility, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for nareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 o

mail at voting@nsdl.co.in. n case of any grievance(s) in connection with voting by electronic means, the Members may contact to Mr. Shrawan Mangla, T-34, IInd Floor, Okhla dustrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Email Id: info@masserv.com, Tel No.: 011-26387281-83 or send an e-mail to the Company Secretary a

FURTHER NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and lisclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday

eptember 23, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Generally, a member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the prox need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the aforesaid Circulars, physical attendance or embers has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence th

roxy Form and Attendance Slip are not annexed hereto. all documents referred to in the Notice will also be available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation o his Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to secretarial@vipulgroup.in.

embers seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company on efore Friday, September 23, 2022 through email on **secretarial@vipulgroup.in**. The same will be replied by the Company suitably. lembers who have not yet encashed their dividend warrants for the earlier years are requested to write to the Secretarial Department at the egistered or Corporate Office of the Company to claim the dividend. Details of unclaimed dividend as on September 29, 2021 i.e. date of last Annua

eneral Meeting, are available in the investors section of the website of the Company www.vipulgroup.in. Member may note that during the financial year 2023-24, the Company will be required to transfer to the Investor Education and Protection Fund terim dividend declared by the Board of Directors of the Company in the month of November 2016 and which is lying unclaimed with the Company fo period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend.

All Members are requested to register their e-mail address with the Company. In support of green initiative, the Company will send you the Annua Reports and other relevant information and documents at your registered --mil address. Registering e-mail address will help in better communication.

Reports and other relevant information and documents at your registered --mail address. Registering e-mail address will help in better communication. 

Better the property of the relevant information and documents at your registered --mail address. Registering e-mail address will help in better communication. 

Better the property will be the property of the registering e-mail address will help in better communication. 

Better the property will be the property of the educing use of paper. Kindly send your details at **secretarial@vipulgroup.in** or **info@masserv.com** for registration of e-mail address

M/s AVA Associates through its Partner Mr. Amitabh, Practicing Company Secretary (Membership No. A14190, COP No. 5500), has been appointed a the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Members who would like to express their views/ask questions during the meeting need to register themselves as a speaker by sending their reques mentioning their name, demat account number/folio number, e-mail ID and mobile number at secretarial@vipulgroup.in on or before Friday

September 23, 2022 (6:00 pm IST). Those members who have registered themselves as a speaker will only allowed to express their views/as questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers attending on the availability of time for the AGM.

For Vipul Limite Sunil Kuma **Company Secretary** 

Date: September 05, 2022 Place : Gurugram



#### **NXTDIGITAL LIMITED** (CIN: L51900MH1985PLC036896)

Regd. Office: IN CENTRE, 49/50, MIDC, 12th Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093. Phone: 022 2820 8585; e-mail id: investorgrievances@nxtdigital.in; website: www.nxtdigital.co.in

NOTICE OF THE THIRTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING,

RECORD DATE FOR DIVIDEND AND REMOTE E-VOTING NOTICE is hereby given that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Tuesday,

- September 27, 2022 at 3:00 p.m. (IST) by means of Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on account of outbreak of COVID-19 pandemic and in accordance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India (SEBI) to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://www.evoting.nsdl.com. Members participating through VC OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM and Annual Report – 2021-22, have been
- sent to all the Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant (s) or the Company RTA on September 5, 2022. The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company is available on the Company's website a https://www.nxtdigital.co.in/investors/annual-reports/ and website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com.

## Manner of registering / updating email addresses:

Members holding shares in physical mode who have not yet registered / updated their e-mail addresses with the Company are  $requested to register / update the same by sending email on \underline{investorgrievances@nxtdigital.in} \ or \ to \ the Registrar and Share Transference of the Registrar an$ Agent (RTA) of the Company viz. KFin Technologies Limited ("Kfin") at einward.ris@kfintech.com.

Members holding shares in dematerialised mode who have not yet registered / updated their e-mail addresses with their Depositor Participants, are requested to register / update their e-mail addresses with the Depository Participants with whom they maintain their

# Manner of casting vote (s) through e-voting

- In terms of the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM by electronic means. The Company has engaged the services of NSDL as the Agency to provide electronic voting facility. The remote e-voting period will commence on Friday September 23, 2022 (at 9.00 a.m. IST) and ends on Monday, September 26, 2022 (at 5.00 p.m IST).
- Members will have the opportunity to cast their vote (s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting") whose names appear in Register of Members/ Beneficial Owners as on cut- off date i.e. Tuesday
- The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and fo members who have not registered their e-mail addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be  $available \ on \ the \ website \ of \ the \ Company \ at \ \underline{www.nxtdigital.co.in} \ and \ on \ the \ website \ of \ NSDL \ at \ \underline{https://www.evoting.nsdl.com}.$ The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who
- have not cast their vote (s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the Company / KFin / Depository Participant (s), may generate loging credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM.
- The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC / OAVM.
- Record Date for Dividend and payment thereof
- The Company has fixed Friday, September 16, 2022 as the Record Date for determining entitlement of Members to Dividend recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year 2021-2022.
- Subject to approval of the Members at the AGM, the dividend will be paid within statutory time period from the conclusion of the AGM to the Members whose name appears on the Company's Register of Members as on the Record Date, and in respect of the share held in dematerialised mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Centra Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on that date.
- As per the relevant circulars, payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have updated thei bank account details. Dividend Warrants / Demand drafts will be dispatched to the registered address of the members who have no
- Payment of dividend will be subject to deduction of tax (TDS) at applicable rates. For more details, please refer to the Notes to the
- Notice of AGM NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 17, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive) for the Thirty Seventh Annual General Meeting and for determining the members entitled to payment of dividend for the financial year 2021-22, if declared by Members.
- Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before the cut-off date for e voting i.e. Tuesday, September 20, 2022 may obtain the user ID and password by sending an e- mail request to https://www.evoting.nsdl.com. The detailed procedure for obtaining user id and password is also provided in the notice of the AGM which is available on the website of the Company. If the Member is already registered with NSDL e-voting platform ther he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting
- The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again
- Ms. Rupal Jhaveri, Practicing Company Secretary (CP No. 4225), has been appointed by the Board of Directors of the Company as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner.
- 0. The results of the remote e-voting shall be declared within two (02) working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.nxtdigital.co.in and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration and the results will also be communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed, viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited

case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means before or during the AGM, you may contact NSDL at the esignated email ID: evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

## 11. Request to register/update KYC and nomination details and claim unclaimed dividend

Members are requested to register/update their KYC details (PAN, address, mobile no., email, bank account) and nomination details with RTA in Form ISR-1 (for physical shareholders) or with their Depository Participants (for demat holders). The Members are also equested to claim and encash dividend declared for the previous financial years, if unclaimed, by sending an email request to einward.ris@kfintech.com. Non-registration of KYC. Bank account details and nomination details by the physical shareholders on or pefore March 31, 2023 will result in freezing of the folio of the physical shareholders by RTA – KFIN and same shall be reverted to the ormal status only upon receipt of all the KYC and nomination details/dematerialization of such holdings

For NXTDIGITAL LIMITED Sd/ Ashish Pandey Company Secretary

Place: Mumbai

Date: September 5, 2022

### एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

लयः बी-4, भूतल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018। सीआईएनः L16000DL1987PLC396234 ई-मेलः admin@eliteconinternational.con वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बक क्लोजर की सचना तद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की आयोजित होने वाली एजीएम की सचना में निर्धारित विशे यवसायों के लेन-देन के लिए एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड़ ('कम्पनी') के सदस्यों की वार्षिक आग

बी-4, भूतल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 पर आयोजित की जाएगी। उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ एजीएम की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा रीति उ नदस्यों को निम्नलिखित रीति से भेजने का कार्य 5 सितम्बर, 2022 को पूरा कर लिया गया है जिनके न डिपॉजिटरी द्वारा प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं

बैठक ('एजीएम') शक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को शाम 11:00 बजे पर्वा, कंपनी के पंजीकत कार्याल

क) ई-मेल द्वारा उन सदस्यों को जिनके ई-मेल आईडी पंजीकत हैं. तथा

ख) डाक द्वारा उन सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकत नहीं किये हैं। . गथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व और प्रकर अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 ('सूचीबद्धता विनियम') तथा भारतीय कम्पनी सचिव संस्था gरा जारी आम बैठकों के सचिवीय मानक (एसएस2) के सन्दर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को कम्पनी व ग्जीएम आयोजित करने की सचना में निर्दिष्ट किसी या सभी प्रस्तावों पर अपना मताधिकार का उपयोग कर . . . के लिए सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्य

. ते मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

अधिनियम तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार विवरण निम्न प्रकार हैं क) भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिनके नाम कट-ऑफ तारीन यानी 23 सितम्बर, 2022 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबन्धित लाभार्थी स्वामियों वे रजिस्टर में दर्ज हैं ('पात्र सदस्य') वे एजीएम की सचना में उल्लिखित किसी या सभी व्यवसायों ए

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान वोटिंग के पात्र होंगे। ख) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 7 सितम्बर, 2022 को 09:00 पूर्वाह्न से शुरू होगी।

ग) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 29 सितम्बर, 2022 शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। घ) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिव

साधनों से मतदान की अनुमित नहीं दी जायेगी। एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिर जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी:

ङ) सदस्य कपया ध्यान दें कि :

मतदान पत्रों के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी और जि सदस्यों ने बैठक में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है वे बैलट पेपर के माध्यम से बैठक में अपने मतदान का अधिकार कर सकेंगे। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में शामिल हो सकता है लेकिन वह दबारा वोट देने का हकदार नहीं होगा।

च) यदि कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 202 तक या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, helpdesk.evoting@cdslindia.com प निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

छ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों वे रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज किया गया है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-सा एजीएम बैलेट पेपर से वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ज) किसी भी प्रश्न के मामले में, http://www.evoting.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध आ Frequently Asked Questions (FAQs) for members तथा e-voting user manua for members का सन्दर्भ ले सकते हैं या सुश्री नेहा अनुज, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकार से cs@eliteconinternational.com पर संपर्क कर सकते हैं।

 ज) रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल प्रक्रिया के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान की जांच करने वे लिए निदेशक मंडल ने श्री आकाश गोयल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। झ) एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अन्तरण पस्तकें शनिवार, 24 सितंबर 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

ादस्य रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीके के लिए एजीएम की सूचना देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनि ग्रोटिंग से जुड़ी कंपनी के सदस्यों की किसी भी शिकायत या प्रश्नों को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसा संबोधित किया जा सकता है या कंपनी के कॉपोरेंट कार्यालय में कंपनी सचिव को लिखा जा सकता है। एजीएम और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को बुलाने की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.eliteconinternational.com और सीडीएसएल की vww.evoting@cdslindia.com पर उपलब्ध होगी।

निदेशक मंडल के आदेशानस एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लि। तिथि : 05.09.2022 (विपिन शर्मा श्थान : दिल्ली प्रबन्ध निदेश डीआईएन : 0173951

स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड CIN: U25208HR1983PLC015135

पंजी. कार्यालय: 23/7, मथुरा रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 फोन नंबर: 0129.4296500

ई-मेल: secretarial@studds.com, वेबसाइट: www.studds.com 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा ई—वोटिंग जानकारी

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड की 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक ्रें शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को अप. 4.00 बजे (आईएसटी), एजीएम की सूचना मे ्रियार्ग ), पुर्वाना, 30 राताच्यु, 2022 वर्ग अन्य कार्य (शिक्ष्याय्य), राजा, ना सूचीना सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादात्त हेतुं, कर्गमी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों एवं वस्त्र नियमों, तदधीन संशोधनों सहित के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी जनरल सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स") के अनुपालन में, किसी उमय स्थान पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बगैर, वीडियो कॉन्फ्रेन्स / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी / ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से

एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें एजीएम की सूचना, लेखापरीक्षित पृथक्कृत और समेकित वित्तीय विवरण (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिंपोर्ट तथा उसके साथ सलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेजों सहित) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा चकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी'ज रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेन्ट ("आरटीए") अथवा संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ("डीपी'ज) के पास पंजीबद्ध है . सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पर्न की वेबसाइट <a href="https://www.studds.com/investor-relations">https://www.studds.com/investor-relations</a> पर तथा आरटीए की वेबसाइट</a> <a href="https://www.linkintime.co.in">www.linkintime.co.in</a> पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी ने लिंक इनटाइम इंद्रिया पाइवेट लिमिटेड की सेवाएं वीसी /ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम के संचालन तथा इसके सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुबंधित की हैं। सदस्यगण अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम मे ई—वोटिंग द्वारा एजीएम की सूचना में वर्णित / उल्लेखित विधि में डाल सकते हैं।

बोर्ड ने कम्पनी सेक्रेटरीज, मनीष के ऐंड एसोसिएट्स के पार्टनर सीएस मनीष कुमार के र्द—वोटिंग प्रक्रिया की निष्प्रश और पारदर्शी संवीक्ष के लिए संवीक्षक नियक्त किया है। घोषित परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.studds.com</u> पर प्रदर्शित की जाएगी

प्तीए सर्कलर्स के निबन्धनों में. चंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त क दी गई है, अतः परोक्षियों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 105 के तहत सदस्यों द्वारा परोक्षियों की नियुक्ति की सुविधा, इस एजीएम के लिए उपलब्ध

एजीएम की सचना में सचीबद व्यवसाय का निष्पादन रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम ई—वोटिंग द्वारा किया जा सकता है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

क) ई-मेल द्वारा एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रेषण की तिथि: 03 सितम्बर, 2022

ख) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग, वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के प्रयोजनार्थ सदस्यों की ग्राह्मता निर्धारण हेत् कट—ऑफ तिथि : 23 सितम्बर, 2022 (व्यवसाय समयावधि की समाप्ति पर)।

ग) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित किय गया, प्राप्त करने हेतु सदस्यों की ग्राह्मता निर्धारण हेतु रेकार्ड तिथि : 30 सितम्बर, 2022 घ) रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : 27 सितम्बर, 2022 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी)

ड़) रिमोट ई—वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : 29 सितम्बर 2022 को अप 5.00 बजे (आईएसटी)। 29 सितम्बर, 2022 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई—वोटिंग की

च) जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके होंगे, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। एक बार वोट डालने के बाद, सदस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

छ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इवेंट नंबर (ईवीईएन) : 220437 ज) केवल वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे तथा

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला होगा और वे ऐसा करने हेतु प्रतिबंधित नहीं हैं. एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के हकदार होंगे। झ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट

ई-वोटिंग की सुविधा तथा ई-वोटिंग सुविधा द्वारा एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त ञ) यदि अंतिम लाभांश, निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत अनुसार, एजीएम में अनुमोदित किया जाता है, तो इस लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") की शर्त पर 30 दिन की

सांविधिक समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

ट) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह secretarial@studds.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति, जो कट—ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य नहीं है, उसको एजीएम की यह सुचना जानकारी मात्र के निमित्त समझनी चाहिए।

 त) सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो सकते है और भाग ले सकते हैं। एजीएम से जुड़ने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

ड) किसी संदेह की स्थिति में, सदस्यगण लिंक आरटीए से ई-मेल enotices@linktime.co.in अथवा फोन नंबर 022-4918 6000 पर अथवा श्री हितेश वढेरा, कम्पनी सेक्रेटरी से ई-मेल secretarial@studds.com पर अथवा फोन : 0129-4296500 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इस सचना में सचीबद्ध प्रस्तावों पर ई—वोटिंग के लिए ई—मेल आईडी'ज के पंजीकरण तथा यज

आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उन सदस्यों हेतु प्रक्रिया, जिनकी ई–मेल आईडी ज डीपी'ज/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं : क) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर सर्टिफिकेट

की स्कैन प्रति (फ्रांट और बैक), पैन (पैंन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति) ई-मेल द्वारा secretarial@studds.com को भेजें। ख) यदि शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं, कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 डिजिट

डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 डिजिट लामार्थी आईडी) नाम क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति) secretarial@studds.com को भेजें।

सदस्यगण अपनी ई–मेल आईडी'ज तथा परमानेंट अकाउंट नंबर ("पीएएन") नीचे दी गई प्रक्रिय के अनसार पंजीकत करवा सकते हैं :

क) भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य : भौतिक रूप में शेयरों के धारक कम्पनी के सदस्य जिनके द्वारा उनकी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई गई है, वे अपनी ई–मेल आईडी पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति के साथ secretarial@studds.com पर लिखकर पंजीकृत

ख) अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य : अभौतिक रूप में शेयरों के धारक कम्पनी के सदस्य अपनी ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के पास उनके द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करवा सकते हैं।

स्थान : फरीदाबाद

तिथि : 05 सितम्बर, 2022

कृते स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड हितेश वढेरा

कम्पनी सचिव

FCS-10907

ा भारतीय स्टेट बैंक शाखाः आर्य समाज रोड्, मुजफ्फरनग

कब्जा सम्बन्धी नोटिस चल/अचल सम्पत्ति हेतु नियम 8(1)

सेक्योरिटिजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002, (2002 का एक्ट नं0 54) तथा सिक्योरिटी इन्टेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शीय गए खातें में उसके नाम के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया है। "उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।" ऋणी को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन **भारतीय स्टेट बैंक, आर्य समाज रोड़** 

**शाखा मुजफ्फरनगर** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है

क्र. सं.	ऋणकर्ता के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति / यों का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जे की तारीख	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	<b>ऋणी/गारन्टरः</b> श्री अरविन्द	बंधक आवासीय मकान स्थित मौहल्ला- लक्ष्मीपुरम रकबा, ग्राम-	24.06.2022	30.08.2022	₹0 18,97,058/-
		कुकड़ा, तहसील एवं जिला- मुजफ्फरनगर (उ०प्र0), माप क्षेत्रफल			+ ब्याज एवं
	सिंह एवं श्री राम रतन सिंह	81.51 वर्ग मीटर अर्थात् 97.50 वर्ग गज, सम्पत्ति स्वामी श्री			अन्य खर्चें
		राम रतन सिंह, विक्रेय विलेख नं0 12127, दिनांक 02.12.2014			
		पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- पूर्वः 27 फीट/ प्लॉट नं0 109,			
	लक्ष्मीपुरम, निकट आरबीएम	पश्चिमः 27 फीट/ 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 32 फीट 6			
	पब्लिक स्कुल, गांधी नगर,	इंच⁄संगीता एवं विजय कुमार का मकान, दक्षिणः 32 फीट 6			
	कुकड़ा, मुजफ्फरनगर।	इंच/विक्रेता का प्लॉट।			
वि	नांक—05.09.2022	स्थान — मुजफ्फरनगर		प्राधि	हृत अधिकारी

■■Fullerton ■■ Grihashakti

फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड **कॉरपोरेट कार्यालयः** पांचवीं तथा छठवीं मंजिल, बी-विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवाई, मुम्बई-400 076 पंजीकृत कार्यालयः मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामाल्ले हाई रोड, मदुरावोयाल, वेन्नई-600095

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परीशिष्ट) नियम 8(1)]

**र्कि, फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड**, एक हाउसिंग फाइनैंस केपनी [नैशनल हाउसिंग बैंक (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व प्राप्त) के साथ ालीमांति पंजीकृत] (जिसे यहां बाद में **"एफआईएचएफसीएल"** कहा गया है, पंजीकृत कार्यालय **मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165**, **नमाल्ली हाई रोड मदरावोयाल, चेन्नई, तमिलनाड-600095,** के **अधिकृत अधिकारी** होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों <sup>ह</sup> िंठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धार . 3(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत नीचे उल्लेखित तारीख को मांग सूचना जारी की गई थी, उपर्युक्त अधिनियम की घारा 13(2) के अधीन आप कर्जदारों (नाम एवं पता नीचे उल्लेखित हैं) को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों के अंदर** उक्त सूचना में उल्लेखित रकम के साथ उस पर ज की रकम चुकता करने को कहा गया था। यहा नीचे उल्लेखित कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्व यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों एवं जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर **कब्जा कर लिया** गया है। विशेष गौर पर यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा यहां नीचे उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज की रकम के लिए **फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटे**ड वे भार का विषय होगा।

क्र . सं .	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम साथ में ऋण खाता सं.	प्रत्याभूत सम्पत्तियों का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	प्रतीकात्मक कब्जा की तारीख
01		ग्राम नवादा कॉलोनी. ब्लॉक-एल-एक्सटेंशन मोहन गार्डन	तारीख: 12.08.2021	02.09.2022
"	(1) नंद किशोर, पिता रमेश चंद्र	के नाम से ज्ञात, उत्तम नगर, नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित	₹, 13,37,193,83	(भौतिक
	(2) मनीषा, पति नंद किशोर	खसरा नं. 387 में से 100 वर्ग यार्ड परिमाप क्षेत्र का	(रुपये तेरह लाख	कब्जा)
	पता 1: आरजेड 888, पहली मंजिल, एसटी	प्लॉट नं. 304 के रूप में सम्पत्ति	सैंतीस हजार एक	,
	सं. 9/3 ए, साध नगर पालम कॉलोनी,		सौ तिरानवे एवं	
	दिल्ली, साध नगर, दिल्ली-110045		पैसे तिरासी मात्र)	
02	एलएएनः 609107210506401	ग्राम असलातपुर खद्दर, नई दिल्ली के ब्लॉक डी-2, जीवन	तारीखः 24.12.2021	03.09.2022
	<ul><li>(1) विकास नेगी, पिता बीरेन्द्र नेगी,</li></ul>	पार्क क्षेत्र के नाम से ज्ञात रिहायसी कॉलोनी में स्थित	₹. 33,50,172.97	(भौतिक
	(2) संगीता देवी, पति विकास नेगी	खसरा नं. 16/22 में से 120 वर्ग यार्ड परिमाप क्षेत्र की	(रुपये तैंतीस लाख	कब्जा)
	पता 1: आवास सी 70/71, चौथी	सम्पत्ति सं. 157-ए पर निर्मित दूसरी मंजिल, उक्त मंजिल	पचास हजार एक	
	मंजिल, जीवन पार्क, उत्तम नगर,	की छत के अधिकार के साथ।	सौ बहत्तर एवं	
	दिल्ली-110059		पैसे सनतानवे मात्र)	

**स्थानः** नई दिल्ली अधिकृत अधिकार फलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटे



इंडियन स्कूल फाइनैंस कम्पनी प्रा. लि.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के साथ पठित

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के अधीन। जबकि अधोहस्ताक्षरी ने इंडियन स्कूल फाइनैंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएफसी) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के तहत

और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) (सभी एकल अथवा सामूहिक रूप में "आबंधक" कहे गए हैं)/कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को सासभीको एक विस्तृत मांग सूचना जारी की थीं, जिसमें उनसे संबंधित मांग सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, नीचे दिए गए विस्तुत विवरण के अनुसार संबंधित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। उक्त सुचनाओं की प्रतिय रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भेजी गई थीं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त आबंधक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि, यदि वे ऐस चाहें, संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्य समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में एतदद्वारा एक बार पुनः उक्त आबंधकों / कानूनी वारिस(सों) / कानूनी प्रतिनिधि(यों) को सूचना दी जाती है कि यहां नीचे

उनके संबंधित नामों के समक्ष निदर्शित बकाया राशि उक्त आबंधकों द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेजों / विलेखों, यदि कोई, क्षे साथ पठित कालम (डी) में वर्णित संबंधित तिथि से आगे भुगतान तथा ⁄ अथवा वसूली तक आगे ब्याज के साथ आईएसएफसी को 60 दिन के भीतर चका दें। ऋण की सम्यक वापसी के लिए उक्त आबंधकों द्वारा निम्नलिखित आस्तियां प्रतिभति के रूप में बंधक रखी गई हैं ।

- 1	_						
ı	ऋण खाता संख्या	कर्जदार नाम /गारंटर	तिथि तक बकाया राशि	13(2) सूचना की तिथि और एनपीए की तिथि			
	113101001108		कुल बकाया राशि रू. 29,77,303/— (रूपए उन्तीस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ तीन मात्र) 08–08–2022 तक ब्याज सहित तथा आगे प्रतिभुगतान तक ब्याज				
- 1	1	प्रक्रिया अधिकारें /अन्य सम्मुनियों /अंश्रुक सम्मुनियों का क्रांत					

खाता नंबर 466, कुरा नंबर 2, खसरा नंबर 918/2, रकवा 0.683 हेक्टेयर अथवा खसरा नंबर 919(V)/0.018 तथा 919(C)/3.140 अथवा खसरा नंबर 918/3 रकव 0.683 हेक्टेयर, स्थित राजस्व सम्पदा ग्राम बांकनेर, तहसील खेर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा **चौहददी : पूरव :** रोड, **परिचम :** राजेन्द्र शर्मा की कृषि भूमि उत्तर : आवेदक की कृषि भूमि, दक्षिण : आवेदक की कृषि भूमि

आगे भुगतान तथा/अथवा वसुली की तिथि तक उपरिवर्णित संबंधित सुचनाओं में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित दर पर अतिरिक्त ब्याज उपगत अनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभार इत्यादि। यदि उक्त आबंधक आईएंसएफसी को उपरोक्तानुसार भूगतान करने में असफल रहेंगे, तं आईएसएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत और अन्य लागू नियमों के तहत प्रतिभूत आस्ति(यों) / अचल सम्पत्ति(यों) के संबंध में आगे कार्यवाही करेगा जो लागत और परिणामों के संबंध में उक्त आंबंधकों / कानूनी वारिस(सों) / कानूनी प्रतिनिधि(यों) की पूर्ण जोखिम पर होगी।

उक्त आबंधक / कानूनी वारिस / कानूनी प्रतिनिधि आईएसएफसी की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत आस्ति(यों) / अचल सम्पत्ति(यों को बिकी पटटा अथवा अन्य प्रकार से इस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। अधिनियम अथवा नियमावली के पावधानों का उल्लंधन अथवा उल्लंधन हेत अभिप्रेरित करने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा / अथवा आर्थिक दंड का भागी होगा।

स्थान : अलीगढ, उत्तर प्रदेश हस्ता. / — प्राधिकत अधिकार्र तिथि : 06-09-2022 इंडियन स्कूल फाइनैंस कम्पनी प्राइवेंट लिमिटेड

■■Fullerton ■■ Grihashakti

**ਦ**ੁਕਦਦੂਰ

# फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालयः पांचवीं तथा छठवीं मंजिल, बी-विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवाई, मुम्बई-400 076 पंजीकृत कार्यालयः मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामाल्ले हाई रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई-600095

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अधीन फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (प्रत्याभूत ऋणदाता) के पार

गिरवी पर रखी गई प्रत्याभूत सम्पत्ति आस्तियों की बिक्री के लिए 30 दिनों की बिक्री-पूर्व सूचना तदद्वारा **साधारण तौर पर जनसाधारण** तथा विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं को **सूचना** दी जाती है कि यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथ

गरंटीदाताओं से **फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड** /प्रत्याभूत ऋणदाता की यहां नीचे उल्लेखित बकाया रकम तथा वसूली की तारीख तक उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य व्यय की राशि की वसली के लिए प्रत्याभत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्रभारित नीचे सचीबद्ध अचल सम्पत्तियों ("प्रत्याभृत सम्पत्तियां") जिस पर **फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड ("प्रत्याभृत ऋणदाता") के अधिकृत अधिकारी** द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की यहां नीचे उल्लेखित तारीख एवं समय पर "जैसे है जहां है", "जैसे है जो कुछ है" तथा "वहां जो कुछ है" की बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (ईएमडी) तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख का ब्यौरा नीचे उल्लेखित है

1) ई-नीलामी की तारीख एवं समय: 07.10.2022 को पर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार वे साथ)

2) भागीदारी हेतु अनुरोध पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी के साक्ष्य इत्यादि जमा करने की अंतिम तारीख एवं समयः 06.10.2022 कर्जदार/गारंटीदाता का नाम मांग सचना की सम्पत्तियों का

			1	
	एलएएनः 609107210451296	<b>दिनांक</b> ः 19.10.2021	ग्राम तिहा	ड़, शिव नगर एक्टेंशन, नई दिल्ली में स्थित
	<ol> <li>बोनी शर्मा, पिता राजकुमार (2) शशि</li> </ol>	रु. 35,37,087.40 (रुपये पैंतीस	सम्पत्ति सं	i. डब्ल्यूजेड-382/1, प्लॉट नं. 7 एवं 8 का
01	शर्मा, पति बोनी शर्मा (3) ऊषा शर्मा	लाख सैंतीस हजार सत्तासी	हिस्सा पर निर्मित सम्पूर्ण तीसरी मंजिल, उक्त मंजिल	
	पता 1: प्लॉट नं. ए11, एसएफ आरएच 17/3	एवं पैसे चालीस मात्र)	की छत वे	n अधिकार के साथ, क्षेत्र का परिमाप 66.67
	तथा 4 ग्राम, मटियाला कॉलोनी, किरण गार्डन,	दिनांक 12.10.2021	वर्ग यार्ड	का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।
	भारत गार्डन, नई दिल्ली-110078	को बकाया		-
	आरक्षित मूल्यः रु. 29,50,000/-	बयाना राशि जमाः रु. 2,95,0	00/-	बोली वृद्धि मूल्यः रु. 29,500/-
	(रुपये उनतीस लाख पचास हजार मात्र)	(रुपये दो लाख पनचानवे हजार	मात्र)	(रुपये उन्नतीस हजार पांच सौ मात्र)
	एलएएनः 609107210509408	<b>दिनांकः</b> 26.07.2021	तुगलगाबा	द एक्टेंशन, नई दिल्ली में स्थित खसरा नं.
	एवं 609107210551723	रु. 49,80,788.37 (रुपये	448 में स	म्मिलित, गली नं. 24 में सम्पत्ति सं. आरजेड-

तारीख एवं रकम

011(14)(1 2(4) (1, 20,00,000)		441 II (II(1 41111 ( . E,00,000)		1 41(11 21\a \text{2}(41 \text{3} \text{2} 2000)	
	(रुपये उनतीस लाख पचास हजार मात्र)	(रुपये दो लाख पनचानवे हजार	मात्र)	(रुपये उन्नतीस हजार पांच सौ मात्र)	
	एलएएनः 609107210509408	<b>दिनांक</b> ः 26,07,2021	तुगलगाबा	इ एक्टेंशन, नई दिल्ली में स्थित खसरा नं.	
	एवं 609107210551723	रु. 49,80,788.37 (रुपये	448 में स	म्मिलित, गली नं. 24 में सम्पत्ति सं. आरजेड-	
02	(1) डॉ. आलीम अफसर, पिता नसीम अफसर		904 की व	यूनिट सं. 203, दूसरी मंजिल पर, पीछे की	
	(2) गिजाला नईम अय्युबी, पति नईम अय्युबी	सौ अड्डासी एवं पैसे सैंतीस मात्र)	ओर, क्षेत्र	का परिमाप 91.96 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण	
	<b>पता. 1:</b> आरजेड 904/24, दूसरी मंजिल,	दिनांक 27.03.2021	एवं सर्वार्ग	ोण हिस्सा।	
	फ्लैट नं. 203 के पीछे की ओर, तुगलकाबाद	को बकाया			
	एक्सटेंशन, कालकाजी, नई दिल्ली-110019				
	आरक्षित मूल्यः रु. 39,00,000/-	बयाना राशि जमाः रु. 3,90,0	000/-	बोली वृद्धि मूल्यः रु. 39,000/-	
	(रुपये उनतालीस लाख मात्र)	(रुपये तीन लाख नब्बे हजार मा	র)	(रुपये उनतालीस हजार मात्र)	
बिक्री	बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है तथा हमारी/प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट की नीचे उल्लेखित लिंक/वेबसाइट पते पर भी विवरण				

उपलब्ध है (https://disposalhub.com तथा https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) पर भी उपलब्ध है। इच्छुक ोलीदाता श्री अशोक मांडा, मोबाइल नं. 989229494841, ईमेलः ashokkumar.manda@grihashakti.com

स्थानः नई दिल्ली तारीख: 06.09.2022



**सेन्ट बेंक** होम फायनेन्स लिमिटेड Cent Bank Home Finance Limited

शाखा कार्यालयः ३ई/१०. मेजानाडन तल. झंडेवालान एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-110055

फोनः 011-35000439 (सीआइएन नं. U65922MP1991PLC006427)

Subsidiary of Central Bank of India सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुषंगी कब्जा की सूचना (नियम 8(1) अचल संपत्ति के लिए)

हस्ताक्षरकर्ता ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रर्वनत एक्ट-2002 के अधीन जो वि सेन्ट **बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी हैं प्रतिभूति हित प्रवर्तन 2002 के नियम 3 के सार पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँग सूचना नीचे खाते के आगे लिखित दिनांक को एक नोटिर में वर्णित राशि एवं अंकित दिनांक से ब्याज एवं अन्य प्रभार, सूचना की प्राप्ति की दिनांक से **60 दिन** के भीतर प्रतिदय करने क मांग करने के लिए जारी किया, अद्योलिखित ऋणी द्वारा रकम का भगतान करने में असफल रहने पर उधार लेने वाले ऋणी जमानतदार और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत इस नियम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे खाते के आगे लिखित दिनांक को इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का **कब्जा** ले लिया हैं उधार ले वाले ऋणी, जमानतदार एवं विशिष्ट रूप से जनसाधारण को इस के द्वारा चेतावनी दी जाती हैं इस संपत्ति के संबंध में व्यवहार नहीं करें और इस संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यवहार **सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड** के खाते के आगे वर्णित राशि, ब्याज एवं अन्य प्रभार के अधीन होगा, खाते का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र सं	ऋणी का नाम	संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस में राशि			
1.	श्री राज वर्मा श्रीमती सुकेश वर्मा श्री अविनाश वर्मा और	बी—89, चौथा तल ( छत अधिकार सहित) ब्लॉक —बी, सैक्टर—8, द्वारका, नई	15/03/2019	क्त. 59,39,692.00 + ब्याज एवं			
	श्री अभिनव वर्मा लोन खाता संख्या— 00602070001371 00602080001352	दिल्ली—110077 चौहद्दी (सीमायें) : पूर्व : संपत्ति सं 88 , पश्चिम :संपत्ति सं 90, उत्तर : संपत्ति सं 80 , दक्षिणः रोड	03/09/2022 (भौतिक)	अन्य सभी खर्च			
	स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी						

दिनांक : 05.09.2022 सेन्ट बैंक होम फाईनेन्स लिमिटेड, नई दिल्ली शाखा

\_\_IndiaShelter

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.

**पंजी. कार्यालय :** लॉट नं.–15, 6वीं मंजिल. सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002 **शाखा कार्यालय:** दुकान नं. 67बी व 68 पहली व दूसरी मंजिल, पी. नं. 277 (पूर्व) टगोर नगर. डीसीएम से अगला अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान–3020221 **शाखा कार्यालय :** तीसरी मंजिल, केनरा बैंक के ऊपर, आईडीबीआई बैंक के पास, अजमेर रोड, मदनगंज,

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना जीवर सिर्माप्त थे । एस नुक्शा पूरिभा के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गन नवा प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम के साथ पिठत धारा 13(2) व 13(12) के अंतर्गत प्रत्त शिवित्त प्रवर्तन अधिकारी मेंजूदा अधेकारी मेंजूदा अधेकार मेंजिय के निए वर्णित लिख पर मांग सूवना जारी की थी। चूंकि संपत्ति के स्वामी और अन्य राशि का मुगतान करने में असफल रहे एतद्वारा वर्णित अधिकारी अधेकार मेंजिय के निए वर्णित कियों पर उन्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पठित उन्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति / यों का सांकितिक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति / यों के साथ केन—देन रूप शक्ति की खेतावनी दी जाती है और सर्पत्ति, यों के साथ किया गया कोई भी अन्त—देन उपप्रप्रणात जाति और मीचे वर्णित सम्तर्य राशि के तिण इंडिया भेवरण शक्ति के प्रभात का विषय होगा।

लेन–देन उसपर ब्याज, लागत आदि और नीचे	उसपर ब्याज, लागत आदि और नीचे वर्णित अनुसार राशि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. के प्रभार का विषय होगा।				
ऋणी / गारंटर का नाम (संपत्ति के स्वामी) ऋण खाता संख्या	प्रभारित / गिरवी संपत्ति का विवरण (शामिल संपत्ति के सभी भाग व पार्सल)	मांग सूचना तिथि, मांग सूचना की तिथि तक देय राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि		
श्री / श्रीमती रेखा पारीक व श्री / श्रीमती भवानी शंकर पारीक निवासी : पी नं, 88-ए, तिरूपति नगर वरण नदी नदी का फाटक मुरलीपुरा जयपुर 4सी 302039 राजस्थान ऋण खाता स. HLJACHLONS000005009224&LAJACLL ONS000005009935	संपत्ति वियरिंग प्लॉट नं. 88 (प्लॉट नं. 88ए) के मिडिल भाग क सभी माग व पार्सल (प्लॉट नं. 88 ए) माप 60.00 वर्ग यार्झ रकीम तिरुपति नंरा-ए-ए, दिल्ली आजमेर बाई पास के पास, सिकर रोड जयपुर राज सीमाएं: पूर्व: प्लॉट नं. 88 का शेष भाग, पश्चिम : प्लॉट नं. 88 को शेष भाग, उत्तर: रोड 30 फुट चौड़ा, दक्षिण: प्लॉट नं. 87	मांग सूबना तिथि 13.06.2022 रु. 1392052.34 / — (रूपए तेरह लाख बयानंह रजार बावन व पैसे चौंतीस केवल) 09.06.2022 तक 10.06.2022 से ब्याज के सहित व भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क व लागत	01.09.2022		
सत्यबाला सैनी व रमेश कुमार सैनी निवासी: डब्ल्यू नं. 35 चंडालिया की धानी चोमुईपुर राजस्थान 303702 राजस्थान यह भी: प्लॉट नंबर 18, जे एस कॉलोनी, रोड नंबर 17, यी.के.आई. जयपुर राजस्थान 303702 ऋण खाता सं. HL30CHLONS000005012829	प्लॉट नं. 18, जे एस कॉलोनी के सभी भाग व पार्सल रोड नंबर 17, वी के आई, जयपुर क्षेत्र 250 वर्ग यार्ड संपत्ति की सीमाएं : पूर्व : सड़क 25 फुट, पश्चिम : प्लॉट नंबर 20, 19 उत्तर : सड़क 30 फुट दक्षिण : अन्य	मांग सूचना तिथि 27 अप्रैल 2022 ए. 5.186374,08 /- 'फ्रपर इक्यावन लाख धियासी हजार तीन सी चीहत्तर व पैसे आउ केवल) 30.04.2022 तक 01.05.2022 से च्याज के सहित व मुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क व लागत	01.09.2022		
श्री / श्रीमती तराना व श्री / श्रीमती अनवर हुसैन निवासी: प्लॉट नं. 115 पेंटर कॉलोनी नहा निसेंग होम नहारी का नाका शास्त्री नगर जयपुर 302016 राजस्थान ऋण खाता सं. LAP200001078T0	संपत्ति बियरिंग प्लॉट सर्वे नं. 115 के सभी भाग व पार्सल, पेंटर कॉलोनी, कच्ची बस्ती, जयपुर राजस्थान माप 64.44 वर्ग यार्ड, सीमा : पूर्व : अन्य भूमि पश्चिम : अन्य भूमि उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : रास्ता 30 फुट	मांग सूचना तिथि 13.06.2022 रू. 172277.92 / — (रूपए एक लाख बहत्तर हजार दो में सतहत्तर व पैसे बयानवे केवल) 09.06.2022 तक 10.06.2022 से ब्याज के सहित व मुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क व लागत	01.09.2022		
श्री / श्रीमती गुड्डू व श्री / श्रीमती ज्ञानी सिंह रावत निवासी : 96, हाथई के पास माजरा, निमबुंकई, ग्राम मनपुरा, मपुरा किशनगढ़ 305811 राजस्थान ऋण खाता सं. CLA100001554 & HL1900002947	संपत्ति बियरिंग पटटा नं. 32 की एक संपत्ति के सभी भाग व पासंल, गांव- निम्बुकिया की धानी मनपुरा ग्राम पंचायत नरवार पंचायत समिति श्रीनगर तहसील अरड्का व जिला अजमेर राजस्थान में रिश्वत माप 95.33 वर्ग यार्ड सीमा: पूर्व: श्री छितर का मकान, पश्चिम : हथाई, उत्तर: स्वयं का स्थान, दक्षिण: रोड	मांग सूचना तिथि 13 जून 2022 रू. 37821.15 / पेपर तीन लाख स्ताहत्तर हुजार आठ सी इक्कीस व पैसे पंत्रह केचल) 09.06.2022 तक 10.06.2022 से ब्याज के सहित व भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क व लागत	02.09.2022		
सरूप कनवा, जगरीश सिंह नरूका, विक्रम सिंह नरूका व फ़्ट्सर पान सिंह निवासी: 659 तेजा देवाली के पास रूपनगढ़ किशनगढ़—305814, राजस्थान ऋण खाता सं. HL30CHLONS00000507092	पट्टा नं. 04 की एक संपत्ति खसरा नं. 1223 का भाग, ग्राम चंघात्त रूपनगढ़, पंचायत समिति किशनगढ़ तहारील-रूपनगढ़ व जिला अजमेर राजस्थान, माप 222.22 वर्ग यार्ड सीमा: पूर्व – सड़क व बौक, पश्चिम: श्रीमती मंजू का मकान उत्तर: श्री मेर्क प्रिंक मा मकान दक्षिण:	मांग सूचना तिथि 17.05.2022 रु. 970240.83 /— (रूपए नी लाख सुत्तर हजार दो सी चालीस व पेसे तिरासी केवल) 31.05.2022 तक 01.06.2022 से व्याज के सहित व भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क व लागत	02.09.2022		

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. के लिए (प्राधिकृत अधिकारी) स्थानः राजस्थान दिनांकः 06.09.2022 किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री यादवेंद्र सिंह (+91 8118807293) व श्री अजय गुप्ता (+90 7906826375) से संपर्क करें



# विपल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : युनिट नं. 201, सी-50, मालवीय नगर, दिल्ली-11001 कॉरपोरेट कार्यालय : विपुल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं : 0124-4065500, वेबसाइट : www.vipulgroup.in

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 31वीं वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में जानकारी

समाचार पत्र में दिनांक 11 अगस्त, 2022 को प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में आगे एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 11 अगस्त, 2022 की एजीएम की सूचन में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन गठित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए

द्वारा जारी साधारण परिएज ने .2/2022 दिनांकित 05 नई, 2022 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवा/अथवा सेवी द्वारा जारी सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2020/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ घटित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी) द्वारा जारी अन्य कोई भी लागू परिपज दें गवधानों के अनुपालन के अनुसार सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति के बगैर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजअल साधनों द्वारा विप लेमिटेड (कंपनी) की 31वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित होगी। कंपनी की वार्षिक साधारण बैठट का मानित रथल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी यूनिट नें. 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम) तथा एमसीए एवं सेबी

परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की 31वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम की सुविधा के जरिए संचालित की जा रही है, जिसके लिए एक साधारण स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित एवं भाग ले सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीएम के मध्यम से बैतक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। बॉर्ड का प्रतिवेदन, निगमित अभिशासन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन के साथ उक्त सूचना सभ

सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज दिया गया है तथा वह कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in के साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्र लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सचीकरण विनियम के विनियम 44 के अनुसा राना जाताचा, प्रवत्त इतेन्द्रांनिक वोटिंग प्रणाली ("सिमा देनांदिग") द्वारा कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के लिए एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर डालने की सुविधा प्रदान की गई है तथा इन वोटिंग के जरिए व्यवसायिक पहलुओं का निर्धारण किया जा सकता।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को सुबह 9.00 बजे आरम्भ होगी एवं वृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को अपराहन 5.00 बजे समाप िरनाट क्यांटा ने काराय सानाय, देन सिराबर, देन सिराबर, देन है के अप का अरान होगा एवं पुरस्तावपर, 23 सत्यंदर, 222 की अरानार ने अरानार ने के बाद उन्हें उसमें होगी। उक्त विथि एवं तारीख के उपरांत रिमोट ई-चोटिंग की अविध के समाप्त होन पर संबंधित सेवा को बंद कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध रहेगी तथा वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित रहने वाले सदस्यों

भग रिमोर ई-वोटिंग के जरिए प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दाला है तथा ऐसा करने के लिए उन पर पावंदी नहीं लगी है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके संदस्य एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे सदस्यों का वोटाधिकार शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 ("अंतिम तारीख") को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के समानुप 'आधार पर होगा। कोई भी व्यक्ति अंतिम तारीख को कंपनी का सदस्य बनते हैं वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के जरिए एजीएम सूचना में निर्धारि किए गए सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के योग्य होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी का सदस्य बनते हैं एवं अंतिम तारीख को शेयर धारण रखते हैं, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज कर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, कोई व्यक्ति अगर रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फॉरगॉट यजर डिटेल्स/पासर्वड' का इस्तेमाल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल र

नीचे उत्तरिकार तेल की सं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 एप सम्पर्क कर सकते हैं। लॉग इन आईडी/यूजर आईडी तथा पासवर्ड हासिल करने की विस्तृत पद्धित एजीएम की सूचना में भी उपलब्ध है, जो कंपनी की वेबसाइट यानी **www.vipulgroup.ir** 

लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा फ्रिक्वेंटली आस्वङ क्वेशचन (एफएक्यू) देखें अथवा एनएसडीएल की टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर सम्पर्क करें अथव voting@nsdl.co.in पर ईमेल करें।

रिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से ईमेल आईडी: info@masserv.com, दूरभाष सं: 011-26387281-83 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कंपनी सिव को secretarial@vipulgroup.in पर ईमेल भेज सकते हैं। **एतद्द्वारा पुनः सृचित किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण जरूरत) विनियमन, 2015 के

विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत एजीएम के उद्देश्य हेतू सदस्यों के रजिस्टर एवं कैपनी की अंतरण पुस्तिका शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार 30 सितम्बर, 2022 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी। साधारण तौर पर उपस्थित होने तथा मतदान के योग्य सदस्य अपनी जगह पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियक्त कर सकते हैं तथा प्रतिनिधि तावारण जार पर जारावार जारावार के पान करवा के आनुसार वीची आहे. को सत्तरय होना आवश्यक नहीं है। चूंकि उपरोक्त सर्कुलरों के अनुसार वीची/ओएयीएम के जारीए एजीएम के आयोजन होने के कारण सत्तरयों की भीतिक रूप र उपस्थिति की जरूरत नहीं है। फलस्वरूप, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी तथा अतएवं प्रतिनिधित्य प्रपत्न वथ

उपस्थिति पर्ची यहां संलग्न नहीं किया गया है। इस सचना के जारी किए जाने से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क का भगतान किए सचना में उल्लेखित संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लि

इति दुनिय जात प्रजान के जाति का जाति है। इति इति क्षेत्र में उपलब्ध होंगे। इस दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक चस्त्य secretarial@vipulgroup.in पर ईमेल मेज सकते हैं। इस संबंध में अथवा एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी मांगने वाले सदस्यों से शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 अथवा उससे पहले कंपनी के पास **secretarial@vipulgroup.in** पर मेल के जरिए लिखने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी द्वारा उपयुक्त रूप से उसका उत्त

पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपने लाभांश अधिपत्र को जिन सदस्यों ने अभी तक नहीं भुनाया है उनसे अपने लाभांश का दावा करने के लिए कंपनी के पंजीकृत अथवा कारपोरे क कार्यालय के सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में पत्राचार करने का अनुरोध किया जाता है। 29 सितम्बर, 2021 तक यानी अंतिम वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तव दावारहित लामांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.vipulgroup.in** के निवेशक खंड में उपलब्ध हैं। सदस्य ध्यान दे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को नवम्बर, 2016 को आयोजित कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में घोषित लामांश जो अमुक्त लामांश

खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के पास दावारहित के रूप में पड़ी हुई राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतर सभी सदस्यों से अपने ई-मेल एडेस कंपनी के पास पंजीकत कराने का अनरोध किया जाता है। हरित पहल के समर्थन में कंपनी आपको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन प्रासंगिक जानकारी तथा दस्तावेज आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेगी। ई-मेल एड्रेस का पंजीयन कंपनी एवं मूल्यवान हिस्सेदार के रूप में आपके के साथ बेहत तरीके से संचार करने में सहायक साबित होगी, तथा संचार पर होने वाले व्यय में भी कटौती होगी तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि कागज के इस्तेमाल में कटौती से पर्यावर की सुरक्षा होगी। ई-मेल एड्रेस के पंजीयन के लिए कृपया अपना ब्यौरा secretarial@vipulgroup.in अथवा info@masserv.com पर भेजें।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच के लिए जांचकर्ता के रूप में मैसर्स एवीए एसोसिएटस अप साझेदार श्री अमिताम, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. ए14190, सीओपी सं. 5500) को नियुक्त किया गया है। बैठक के दौरान जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हें शुक्रवार 23 सितम्बर, 2022 (शाम 6.00 बजे भामास) अथवा उसर पहले secretarial@vipulgroup.in पर अपना नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो नाम ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर भेज कर एक वक्ता के रूप में स्वयं का पंजीकरण करना होगा। वक्ता के रूप में जिन सदस्यों का पंजीयन किया जाएगा एजीएम के जौरान सिर्फ वही अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं।

कंपनी के पास एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के अनुसार उपस्थित रहने वाले वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित है

कृते विपुल लिमिटेड सुनील कुमार कंपनी सचिव

तारीख : 05 सितम्बर, 2022

स्थान : गुरुग्राम

फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेर

विवरण

अधिकत अधिकारी